



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40 | नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 4-10, 2003 (अश्विन 12, 1925)
No. 40 | NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4-10, 2003 (ASVINA 12, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं० आर० एस० /3(V)/2003/31-कामिक:—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में मुख्य संसदीय वृत्तलेखक श्री एस० के० गर्ग को 16 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में प्रधान मुख्य संसदीय वृत्त लेखक के संवर्ग में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

वजुला जी० राजन, अवर सचिव

को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में सं० 10,000-325-15,200 के घेतनमान में दिनांक 16 सितम्बर 2003 की पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक सहायक विधायी परामर्शों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) के पद पर कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री दिवाकर सिंह 18 सितम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम० दास, उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं० ए-12026/4/2002-प्रशा०-1 (वि० वि०)—राष्ट्रपति जी, संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्री दिवाकर सिंह

1-262 GI/2003

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं० ए-32014/4/99-प्रशा०-IV (वि०का०)—राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में विधायी विभाग की श्रीमती कृष्णा कालरा, सहायक को दिनांक 21 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से दो माह की अवधि के लिए

(789)

अथवा ग्रेड में रिक्ति उपलब्ध रहने तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में तदर्थ आधार पर की गई सेवा को ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

फा० सं० ए०-12034/1/2003-प्रशा० IV (वि० का०) — राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग के श्री चमन लाल गुलेरिया, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 5-9-2003 (पूर्वाह्न) से माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री अरुण जेटली) के वैयक्तिक अनुभाग में रुपये 6500-10,500 के वेतनमान में सहायक निजि सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री चमन लाल गुलेरिया की यह नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री अरुण जेटली के प्रसादपर्यंत और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

सं० ए०-32014/4/99-प्रशा०-IV (वि० का०) — कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28/29-08-2003 के का० जा० सं० 5/5/2003-सी ए० J के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों के, प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा नियमित/चयन सूची अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में तदर्थ अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	विभाग	बढ़ाई गई अवधि	
			से	तक
	सबश्री			
1.	कंवर जीत सिंह	विधि कार्य विभाग	10-04-2001	31-12-2003
2.	वी० पी० लाजर	विधायी विभाग	21-06-2002	31-12-2003
3.	ए० के० पांडे	विधायी विभाग	22-07-2002	31-12-2003

रत्ना ललिता, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं० ए०-12023/11/2003-प्रशा०-III (वि० का०) — राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डा० एन० एम० बटाटे को दिनांक 1 सितम्बर 2003 से विधि आयोग की 31 अगस्त, 2006 तक की तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए 17वें विधि आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

सं० ए०-12023/11/2003-प्रशा०-III (वि० का०) — राष्ट्रपति, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम० जगन्नाथ राव को दिनांक 1 सितम्बर 2003 से विधि आयोग की 31 अगस्त, 2006 तक की तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए 17वें विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

को दिनांक 1 सितम्बर 2003 से विधि आयोग की 31 अगस्त 2006 तक की तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए 17वें विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं० 14046/569/2003-यू०टी०एस०-II—संयुक्त सचिव (यू०टी०), गृह मंत्रालय ने श्री राम अवतार शर्मा, परिवीक्षार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा से दिए गए तकनीकी त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० ए०-12023/11/2003-प्रशा०-III (वि० का०) — राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री एस० मुरलीधर

सं० 14031/5/2003-यू०टी०एस०-I—राष्ट्रपति, संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1991

बैंच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री बी० संचनूना को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(2) के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

(राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं० 67/1/2000-प्रशा०-I/रा०अ०रि० ब्यूरो—राष्ट्रपति, सहर्ष श्री बी० एस० यादव, भा० पु० से० (एम०टी० : 87) को दिनांक 10-9-2003 की पूर्वाह्न से रु० 16,400-20,000/- के वेतनमान में उप-निदेशक के पद पर पांच वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

भूपेन्द्र सिंह धपिया, सहायक निदेशक (प्रशासन)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं० ए-19011/2/2003-प्र० सु० (प्र० I)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि० प्र० : 1972) के अधिकारी श्री पी० आई० सुब्रतन को 15 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में और सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर० सानेहवाल, अवर सचिव (प्रशा०)

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० 14012/7/2002-अ०भा०से० (II)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं—

क्रम सं०	नाम	बैंच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री सुबोध कुमार सिंह	1997	7-9-1999
2.	श्री एस० के० राजू	1998	7-9-2000

अकील अहमद, उप निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं० ए-32013/10/2003-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्रीमती मंजुलिका गौतम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ०प्र० : 72) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 09 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं० 39019/06/98-स्था० (ख)—राष्ट्रपति, श्री मातंग प्रसाद, सदस्य संघ लोक सेवा आयोग को दिनांक 08 सितम्बर 2003 के अपराह्न से, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त करते हैं।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

सं० 39019/06/98-स्थापना (ख)—श्री पी० सी० होता ने 08 सितम्बर 2003 के अपराह्न से अपनी कार्यावधि की समाप्ति के परिणामस्वरूप, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2003

सं० 02 पी ए II/03—संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित 16 (सोलह) उम्मीदवारों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थी के रूप में नियुक्त करते हैं—

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री/श्रीमती	
1.	आलोक रंजन झा	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
2.	विष्णु पी० नायर	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ० श्रीनिवास के० जे०	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
4.	डा० अम्बुले शिल्पक नामदेव	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
5.	प्रकाश गुप्ता	2-9-2002 (अपराह्न)
6.	जितेन्द्र पाल सिंह	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
7.	अजय कुमार	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
8.	बबलू स्वाइका	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
9.	मोहित यादव	12-9-2002 (पूर्वाह्न)
10.	निखलेश चन्द्र गिरी	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
11.	सुश्री अंजु कुमारी	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
12.	विनय श्रीकांत प्रधान	5-9-2002 (पूर्वाह्न)
13.	एस० जानकीरमन	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
14.	अल्पना दूबे	11-9-2002 (अपराह्न)
15.	शेरिंग वांगचुक शेरपा	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
16.	विश्वनाथ नेगी	2-9-2002 (पूर्वाह्न)

2. उनकी नियुक्ति पर उपर्युक्त सोलह अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षाधीन (2002) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2003

सं० 06/पी ए II/03—राष्ट्रपति, 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से भारतीय विदेश सेवा में पुष्टि करते हैं :—

अधिकारी का नाम	बैच	पुष्टि की तारीख
श्री आर० गौरव श्रेष्ठ	1999	04-11-2002
सुश्रो देवयानी यू० खोबरागडे	1999	04-11-2002

2. भारतीय विदेश सेवा में उनकी पुष्टि के परिणामस्वरूप अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीखों से उनके अपने-अपने एसाइनमेंट में सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में द्वितीय सचिवों/अवर सचिवों के तौर पर प्रोन्नत किया जाता है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव

दिनांक 22 मई 2003

सं० 07/पी ए II/03—राष्ट्रपति, 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीखों से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
1.	प्रशान्त अग्रवाल	1998	1-7-2002
2.	पीयूष श्रीवास्तव	1998	1-7-2002
3.	आश्वेग अग्रवाल	1998	1-7-2002
4.	मनीष गुप्ता	1998	1-7-2002
5.	असीम राजा महाजन	1998	1-7-2002
6.	यू० एस० रावत	1998	1-7-2002
7.	ए० ए० डिमरी	1998	1-7-2002
8.	डॉ० दीपक भित्तल	1998	1-7-2002
9.	जी० बालासुब्रमण्यम	1998	1-7-2002
10.	विपुल	1998	1-7-2002
11.	आर० के० जायसवाल	1998	1-7-2002

1	2	3	4
12.	के० नागराज नायडू	1998	1-7-2002
13.	अशोक कुमार	1998	1-7-2002
14.	बिरजा प्रसाद	1998	1-7-2002
15.	सपकल वी० वीडू	1998	1-7-2002
16.	वी० बनलाल यवना	1998	1-7-2002

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव

दिनांक 09 जून 2003

सं० 11/पी ए II/03—संजय व्यास तथा अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य (ओ ए सं० 567/1999) के मामले में न्यायिक निर्णय के कारण वर्ष 1983 से 1997-98 तक भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I में पदोन्नति के लिए पैनलों की समीक्षा के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, 09 जुलाई 1991 से श्री बाबू राम को भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित न्यायिक मामलों में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी :—

(क) ओ ए सं० 959/2002—सुश्री मंजू एवं अन्य बनाम भारत सरकार

(ख) ओ ए सं० 1388/2002—श्रीमति सुभाषिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2003

सं० वयू/पी ए-I/29/03—राष्ट्रपति, डा० ए० बी० एस० रमेश चन्द्रा जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में हैं, को 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
डा० ए० बी० एस० रमेश चन्द्रा	अंतरिम महाकोसल, जलालाबाद	1-7-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर डा० ए० बी० एस० रमेश चन्द्रा ने 1-7-2003 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उनी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव
(एफ एस पी/काडर)

सं० क्यू/पी ए-1/30/03—राष्ट्रपति ने श्री सुनील जैन जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III (स्व-स्थाने) में हैं, को 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री सुनील जैन	मिनिस्टर, भारत का राजदूतावास वाशिंगटन	01-07-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर, श्री सुनील जैन जो पहले ही भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में स्व-स्थाने आधार पर हैं, 1-7-2003 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी
उप सचिव (एफ एस पी/काडर)

दिनांक 5 अगस्त 2003

सं० क्यू/पी ए-1/35/2003—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर आयरलैंड (डबलिन) में भारत के राजदूत, की प्रभाकर मेनन, 31 जुलाई, 2003 (अपराह्न) को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी० एन० रेड्डी
उप सचिव (एफ एस पी/काडर)

दिनांक 8 अगस्त 2003

सं० क्यू/पी ए-1/36/2003—राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-II के अधिकारी श्री टी० सी० ए० रंगाचारी को 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री टी० सी० ए० रंगाचारी	राजदूत, भारतीय दूता-वास बर्लिन	1-8-2003

2. भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-I में पदोन्नति के पश्चात अधिकारी ने 1-8-2003 के पूर्वाह्न से ग्रेड-II का पद भार त्याग दिया और उसी तारीख को पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I का पद भार ग्रहण कर लिया।

बी० एन० रेड्डी
उप सचिव (एफ एस पी एण्ड काडर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2003

सं० 15/पी ए-II/2003—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक केडर के भारतीय उच्चायोग, निकोशिया में भूतपूर्व द्वितीय सचिव (पी पी एस) श्री घनश्याम दास, 31 जुलाई, 2003 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० एन० कृष्ण
अवर सचिव (पी ए-III)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं० डी-II/460/सी एफ-02/2003—भारत के राष्ट्रपति ने श्री हाइन्ज काप्प की चेन्नई में जर्मनी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री हाइन्ज काप्प के कौंसली क्षेत्राधिकार में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पान्डिचेरी राज्य होंगे।

पी० पी० सीरकार
प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2003

सं० 8/पी ए-II/2003—भारतीय विदेश सेवा (1991) बेंच में उप सचिव डॉ० पंकज के उनके नाम में परिवर्तन करने के कारण अब से उनका नाम डॉ० पंकज शर्मा होगा।

अनिल के० कालरा
प्रशासनिक अधिकारी (पी ए-II)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2003

सं० 2/पी एफ/2003—राष्ट्रपति विधि एवं संधि प्रभाग में निदेशक (विधि एवं संधि) श्री नरिन्दर सिंह को 30-4-2003 पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि) नियुक्त करते हैं। डॉ० एस० रामा राव द्वारा डब्ल्यू० आई० पी० ओ० की प्रतिनियुक्ति से वापस आकर पद भार ग्रहण करने अथवा अगला आदेश मिलने के पश्चात श्री नरिन्दर सिंह विधि एवं संधि प्रभाग में निदेशक के पद पर वापस हो जाएंगे।

के० के० सैनी
प्रशासनिक अधिकारी (पी एफ)

दिनांक 2 जुलाई 2003

सं० 03/पी एफ/2003—राष्ट्रपति श्री अशोक कुमार चोपड़ा को 20 फरवरी, 2003 से विदेश राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) का प्रथम निजी सहायक नियुक्त करते हैं। विदेश

राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) के प्रथम निजी सहायक सचिव के रूप में श्री अशोक कुमार चोपड़ा को नियुक्ति विदेश राज्य मंत्री (विनोद खन्ना) के विवेकाधीन होगी और उनकी कार्यावधि के साथ समाप्त हो जाएगी।

2. श्री अशोक कुमार चोपड़ा ने 20 फरवरी, 2003 को पूर्वाह्न में विदेश राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) के कार्यालय में प्रथम निजी सहायक का पद भार संभाल लिया।

के० के० सैनी
प्रशासनिक अधिकारी (पी एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 2003

सं० 26/पी बी/2003—अधिर्वापिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री गोपाल दास श्रोवर, निजी सचिव, विदेश मंत्रालय, 31 अगस्त, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

भूपेन्द्र कुमार
प्रशासनिक अधिकारी (पी० बी०)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2003

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिस्थापना विषय:-श्री ए० के० श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त को गैर कार्यात्मक प्रवर ग्रेड की स्वीकृति।

सं० 18/2003 / सं० ए-32012/10/1999 प्रशा-II- - राष्ट्रपति, श्री ए० के० श्रीवास्तव, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा अधिकारी को दिनांक 6-6-2000 (अर्थात् उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्री तालकेश्वर सिंह को गैर कार्यात्मक प्रवर ग्रेड प्रदान किये जाने की तारीख से) से पूर्णतया तदर्थ आधार पर और दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 1405/2003 के अन्तिम परिणाम के अध्याधीन कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर कार्यात्मक प्रवर ग्रेड (14300-400-18300/-रु०) मंजूर करते हैं।

2. इस आदेश से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की अन्तर-वर्षिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 4 सितम्बर 2003

सं० ए - 38012/9/2003 -- प्रशा०-II--राष्ट्रपति, श्री आर० जी० भांडोडकर, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त मुम्बई की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद सेवा, ग्रुप-'क' से 01-9-2003 (पूर्वाह्न) से प्रभावी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2003

आयकर संस्थापना

सं० 12/ सं० ए-32011/1/2002-प्रशासन-6—निम्न-लिखित संयुक्त आयकर आयुक्तों को एतद्द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2002 से 14300-400-18300/- रु० के वेतनमान में प्रवर ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में रखा जाता है:-

क्रम सं०	अधिकारियों का नाम	कोड संख्या
	श्री/सुश्री	
1.	कृष्ण मोहन दीक्षित	89006
2.	भीमन भट्टाचार्य	89505
3.	रमिता अरोड़ा	89007
4.	योगेन्द्र चौधरी	89029
5.	संदीप चौहान	89059
6.	सान्ता कुमार सैकिया	89112
7.	रविन्द्र सिंह रावल	89116
8.	जे०ए० रीथ	89585

पी०सी०भट्ट, अवर सचिव

सं० 13 (सं० 32011/1/2003-प्रशा०-VI)—निम्न-लिखित संयुक्त आयकर आयुक्तों को एतद्द्वारा उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में प्रवर ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में रखा जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	कोड	जिस तारीख से प्रवर ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में रखे गए
1	2	3	4
	सर्वश्री/सुश्री		
1.	राकेश मिश्रा	87010	01-01-2003
2.	श्रीराम बराथन	89086	-वही-
3.	एम० मुनिय्यांडी	90562	-वही-
4.	धीरेन्द्र कुमार मिश्रा	90001	-वही-
5.	नरेन्द्र कुमार चन्द	90002	-वही-
6.	अंकुर गर्ग	90003	-वही-
7.	सैयद नासिर अली	90004	-वही-
8.	एम० अनिल कुमार	90005	-वही-
9.	आर० एन० भालेराव	90503	-वही-
10.	आनंजना राजजीत सिंह	90006	-वही-
11.	मोना सिंह	90007	-वही-
12.	आई० बी० शोख	90504	-वही-
13.	लक्ष्मण कुमार अग्रवाल	90008	-वही-

1	2	3	4
14.	बी० सूर्या नारायणन	90505	01-01-2003
15.	रुपिन्दर बरार	90009	-वही-
16.	डी० पी० जैन	90506	-वही-
17.	अजीत कुमार जैन	90010	-वही-
18.	एस० विजयन	90507	-वही-
19.	मोह० उस्मान	90011	-वही-
20.	डा० शिखा दरबारी	90012	-वही-
21.	बी० जी० गोरे	90508	-वही-
22.	मोनिका भाटिया	90013	-वही-
23.	प्रफुल्ल कुमार प्रुस्ती	90014	-वही-
24.	सस्मिता मिश्रा	90015	-वही-
25.	देवज्योति दास	90016	-वही-
26.	अपर्णा मोहनिया	90017	-वही-
27.	सुमन गुप्ता	90509	-वही-
28.	बलदेव कुमार भारद्वाज	90511	-वही-
29.	कुमार संजय	90018	-वही-
30.	रमेश नारायण भार्गव	90512	-वही-
31.	सुरभि वर्मा गर्ग	90019	-वही-
32.	ज्योति शंकर	90513	-वही-
33.	मदनेश कुमार मिश्रा	90020	-वही-
34.	सुबन शर्मा	90021	-वही-
35.	एस० एच० शिरोडकर	90514	-वही-
36.	एजेटी श्री नगेन्द्र प्रसाद	90022	-वही-
37.	संजय कुमार साह	90023	-वही-
38.	बी० डी० दंतकाले	90515	-वही-
39.	चांदना रामाचन्द्रन	90024	-वही-
40.	जे० कृष्णा किशोर	90025	-वही-
41.	अमल पुष्प	90026	-वही-
42.	ए० एच० खान	90516	-वही-
43.	अजय गोयल	90027	-वही-
44.	अमिताव	90028	-वही-
45.	प्रसेनजीत सिंह	90029	-वही-
46.	श्रीकान्त कुमार अम्बस्था	90030	-वही-
47.	कैप्टेन प्रमोद कुमार बजाज	90031	-वही-
48.	आर० एस० सबनीस	90519	-वही-
49.	विजय वर्मा	90032	-वही-
50.	ए० बी० जोशी	90520	-वही-
51.	एस० बालासुब्रमण्यन	90033	-वही-
52.	विमलेन्दु वर्मा	90034	-वही-
53.	कविता पाण्डेय	90535	-वही-
54.	ए० एस० प्रभु	90521	-वही-
55.	अमित मोहन गोविल	90036	-वही-

1	2	3	4
56.	पीयूष जैन	90037	01-01-2003
57.	आदर्श कुमार मोदी	90038	-वही-
58.	राजेश्वर यादव	90039	-वही-
59.	सिबेन्दु मोहराना	90040	-वही-
60.	सुलेखा वर्मा	90041	-वही-
61.	देबाशीष चन्द	90042	-वही-
62.	ए० के० जी० नायर	90526	-वही-
63.	ललित के० सिंह दहिया	90043	-वही-
64.	अनिता सिन्हा	90044	-वही-
65.	अशोक कुमार सरोहा	90045	-वही-
66.	आर बी शीरसत	90528	-वही-
67.	आनन्द राजेश्वर बैवार	90046	-वही-
68.	अरुण दीवान	90047	-वही-
69.	असित कुमार महापात्रा	90048	-वही-
70.	आनन्द झा	90049	-वही-
71.	बी० डी० खेंगर	90531	-वही-
72.	निखिल पंडित	90051	-वही-
73.	एस० जे० त्रिवेदी	90532	-वही-
74.	अनिल कुमार सिंह	90052	-वही-
75.	डी० एम० काठीवाला	90533	-वही-
76.	असित सिंह	90053	-वही-
77.	सुनील बाजपेयी	90054	-वही-
78.	संजय राय	90055	-वही-
79.	राम बिजल मिश्रा	90056	-वही-
80.	परणीत सूरी	90057	-वही-
81.	पवन के० कुमार	90058	-वही-
82.	जी० डी० गोयल	90535	-वही-
83.	सुधिराजन सेनापति	90059	-वही-
84.	एस० एस० गोयल	90536	-वही-
85.	बी० एन० तिवारी	90537	-वही-
86.	एम० के० झा	90061	-वही-
87.	संजय शिवम	90062	-वही-
88.	आनन्दी नाथ मिश्रा	90063	-वही-
89.	मनीश गुप्ता	90064	-वही-
90.	आलीक कुमार	90065	-वही-
91.	रुचिका चौधरी	90066	-वही-
92.	एन० कृष्णन	90540	-वही-
93.	सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	90067	-वही-
94.	भूपेन्द्र कुमार गुप्ता	90068	-वही-
95.	एम० नारायणन	90541	-वही-
96.	शान्तनु धर्मीजा	90069	-वही-
97.	दामोदर प्रसाद गुप्ता	90070	-वही-

1	2	3	4	1	2	3	4
98.	बी. वेकटरामन	90542	01-1-2003	141.	रमेश चन्द्र	90102	01-01-2003
99.	प्रतिमा कौशिक	90071	-वही-	142.	अमिजीत कुमार नेबखेड़	90103	-वही-
100.	जे. त्यागराजन	90543	-वही-	143.	निवेदिता बिस्वास समदर	90104	-वही-
101.	मुकेश वर्मा	90072	-वही-	144.	राजपाल सिंह	90570	-वही-
102.	अपर्णा मिश्र	90074	-वही-	145.	दूसम सुधाकर राव	90105	-वही-
103.	सूरज नारायण सिंह	90545	-वही-	146.	डॉ० जी० एम० डोंस	90107	-वही-
104.	प्रधान संदीप मुकुंदराव	90075	-वही-	147.	गौतम मंडल	90108	-वही-
105.	अनुपमा शुक्ला	90076	-वही-	148.	जी० श्रीनिवास राव	90109	-वही-
106.	देवनाथ मुखोपाध्याय	90547	-वही-	149.	अगदीश	90110	-वही-
107.	सुशमा सिंह	90077	-वही-	150.	सुभाष बेंस	90111	-वही-
108.	सुबिमल राय	90548	-वही-	151.	टी० एस० एन० मूर्ति	90112	-वही-
109.	संचिता श्रीवास्तव	90078	-वही-	152.	अविनाश कुमार	90113	-वही-
110.	अशोक के० झा	90079	-वही-	153.	पृथी लाल	90114	-वही-
111.	नीरा मल्होत्रा	90080	-वही-	154.	दासी साधु सुन्दर सिंह	90115	-वही-
112.	बी० वी० भास्कर	90550	-वही-	155.	बी० अरुण	90116	-वही-
113.	माला परोपकारी	90081	-वही-	156.	डा० मीठा लाल मीणा	90117	-वही-
114.	अवधेश कुमार	90551	-वही-	157.	पथलान्नथ पीर्या	90118	-वही-
115.	फरहात हुसैन कुरैशी	90082	-वही-	158.	सुनील दत्त	90119	-वही-
116.	अधीर झा	90083	-वही-	159.	प्रिसिल्ला सिग्स	90120	-वही-
117.	शशि भूषण प्रसाद	90084	-वही-	160.	लाल चन्द	90121	-वही-
118.	जो सेवेस्तियन	90085	-वही-	161.	एन० लोंगुआ	90123	-वही-
119.	एन० डी० गणवीर	90552	-वही-	162.	राम बिलास मीणा	90124	-वही-
120.	नरेन्द्र कुमार	90086	-वही-	163.	जॉन विन्सेंट डांकूपर लांगस्टी	90125	-वही-
121.	अमिताभ शुक्ला	90087	-वही-	पी० सी० भट्टा, अवर सचिव			
122.	एम० डी० सोन्तर	90554	-वही-	सं० 14 (फा० सं० ए-32012/5/2002-प्रशासन-6)---			
123.	महेश कुमार	90088	-वही-	निम्नलिखित सहायक आयकर आयुक्तों को एतद्वारा उनके नाम			
124.	डी० एस० सल्लन	90555	-वही-	के सामने निर्दिष्ट तिथि (तिथियों) से 10000-325-15200			
125.	विजय कुमार	90089	-वही-	रुपये के वेतनमान में स्थान.पन्न आयकर उपायुक्तों के रूप में			
126.	जी० टी० वेंकटेश्वर	90090	-वही-	नियुक्त किया जाता है :-			
127.	संजय प्रसाद	90091	-वही-	क्रमांक	अधिकारी का नाम	कोड	जिस तारीख से प्रवर ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में रखे गए
128.	संयद मोहम्मद जावेद आबिदी	90092	-वही-	1	सर्वश्री/सुश्री		
129.	शान्तम बोस	90093	-वही-	1.	पी० एच० नरगुंडकर	94552	1-10-2001
130.	विस्मिता तेज	90094	-वही-	2.	पी० के० वाजपेयी	94580	-वही-
131.	एस० आर० खोक्टे	90561	-वही-	3.	आलोक मिश्रा	96514	-वही-
132.	रीमा होता सिंह	90095	-वही-	4.	श्यामलाल	96524	-वही-
133.	कमलेश चन्द्र दाण्णैय	90096	-वही-	5.	अभय कुमार ठाकुर	97001	-वही-
134.	मनोज पाल सिंह	90097	-वही-	6.	संदीप गोयल	97002	-वही-
135.	सुरेश चन्द्र	90564	-वही-	7.	डी० एम० हलागियावर	97503	-वही-
136.	देवेन्द्र एस० कल्याण	90098	-वही-	8.	श्रीमती अनुशा खुराना	97003	-वही-
137.	वृद्धिगा मधु वाणी	90099	-वही-				
138.	विधान च० साहा	90566	-वही-				
139.	लक्ष्मण सिंह	90100	-वही-				
140.	महेन नाथभाई मौर्य	90101	-वही-				

1	2	3	4
9.	रितेश परमार	970040	1-10-2001
10.	दीपक कुमार नन्दी	97505	-वही-
11.	बलबीर सिंह	97506	-वही-
12.	दीपक गर्ग	95006	-वही-
13.	एन० एन० जैन	97507	-वही-
14.	श्रीमती गरिमा सिंह	97007	-वही-
15.	श्रीमती निधि सिंह	97008	-वही-
16.	प्रवत रंजन चक्रवर्ती	97509	-वही-
17.	प्रभात कुमार गुप्ता	97009	-वही-
18.	दुलाल च० मुखर्जी	97510	-वही-
19.	मृदित नागपाल	97010	-वही-
20.	डी० प्रभाकर रेड्डी	97011	-वही-
21.	मुरारी मोहन भट्टाचार्य	97512	-वही-
22.	जितेन्द्र एम० यादव	97012	-वही-
23.	साधन भट्टाचार्य	96713	-वही-
24.	एच०फणी राजू	97013	-वही-
25.	श्रीमती रश्मिता रानी	97014	-वही-
26.	के० वी० अनन्तनारायनन	97515	-वही-
27.	राजीव कुमार साहू	97015	-वही-
28.	डी० सुरेश बाबू	97516	-वही-
29.	जगदीश प्रसाद जागिद	97016	-वही-
30.	राधे श्याम सिंह	97517	-वही-
31.	समीर टेकरीवाल	97017	-वही-
32.	जीबाच्छ महतो	97518	-वही-
33.	कुमारी ए०एस०बिन्धु	97018	-वही-
34.	डा० सोमासुन्दरम	97519	-वही-
35.	डा०पल्लवी एच० काम्बले	97019	-वही-
36.	के० के० महाजन	97520	-वही-
37.	जी०मनोज कुमार शर्मा	97020	-वही-
38.	ओ०पी०अग्रवाल	97520-ए	-वही-
39.	श्रीमती के० जोति लक्ष्मी	97021	-वही-
40.	ए० बी० राम	97521	-वही-
41.	सुश्री सोमोजान पाल	97023	-वही-
42.	मनोज कुमार दोण	97524	-वही-
43.	एम० के० श्रीवास्तव	97523	-वही-
44.	श्रीमती एम० सुनीता	97025	-वही-
45.	एच० के० सहाय	97524	01-04-2002

पी० सी० भट्ट, अवर सचिव

आधिकार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 2003

एफ० सं० 1/19/2002 करेसी-III—करेसी नोट प्रेस, नासिक रोड, में मुख्य नियंत्रण अधिकारी श्री एस० वी० गावली ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31, अगस्त 03 (अपराह्न) से मुख्य नियंत्रण अधिकारी के पद से कार्यभार त्याग दिया है। उक्त दिनांक से उनका नाम करेसी नोट प्रेस की नामावली से हटा दिया गया है।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

(वैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर, 2003

सं०-1/11/97-डी० आर० टी०—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद में सहायक रजिस्ट्रार श्री सुरेश कुमार की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 10,000—15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 20-10-2003 से 19-10-04 तक या अगला अदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस० पी० एस० सांगवान, अवर सचिव

सं० 13/9/03—डीआरटी—बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा श्री सी० के० लहिडी, अतिरिक्त जिला व सेशन जज, द्वितीय न्यायालय, बराबत को 1-9-2003 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जों भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० पी० एस० सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2003

सं० ए-11013/2/2002—प्रशासन-I—राष्ट्रपति, श्री शक्ति सिंह, आर० ए० एस०, भू-प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, रामस्थान सरकार प्राधिकरण को दिनांक 5-9-2003 के पूर्वाह्न से सह-आवधिक आधार पर 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में मानवीय वित्त मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. वित्त-मंत्री जी के पदभार छोड़ने पर अथवा उनकी सेवाओं की निष्पत्ति मंत्री जी को और आगे आवश्यकता न होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, श्री शक्ति सिंह की सेवाएं उनकी निजी कार्यालय को प्रत्यावर्तित हो जाएंगी।

एस० एल० नेगी, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० 8/19/2000-पी०पी० एण्ड सी/आई०आर०एस०—
राष्ट्रपति, व्यापार चिन्ह के पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार, श्री टी०आर०
सुब्रामनियन को 15 सितम्बर, 2003 पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि
के लिए अथवा श्री टी० आर० सुब्रामनियन द्वारा 62 वर्ष की
आयु प्राप्त किए जाने तक, जो भी पहले हो, बौद्धिक संपदा अपी-
लीय बोर्ड, चैन्नई में तकनीकी सदस्य नियुक्त करते हैं।

3. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के तकनीकी सदस्य के रूप में
श्री टी०आर० सुब्रामनियन को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें,
जिनके द्वारा वह नियंत्रित रहेंगे, "बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड
(अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और
सेवा की अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2003 के प्राव-
धानों के अनुसार होगी।

टी० सी० जेम्स, उप सचिव

सं० 3/19/2000-पी०पी० एण्ड सी/आई०आर०एस०—
राष्ट्रपति, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति
श्री एस० अगदीशन को 15 सितम्बर, 2003 पूर्वाह्न से 5
वर्ष की अवधि के लिए अथवा न्यायमूर्ति श्री एस० अगदीशन
द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने तक, जो भी पहले हो,
बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चैन्नई का अध्यक्ष नियुक्त करते
हैं।

2. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में न्याय-
मूर्ति श्री एस० अगदीशन को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा
शर्तें, जिनके द्वारा वह नियंत्रित रहेंगे, "बौद्धिक संपदा अपीलीय
बोर्ड" (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते
और सेवा की अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियमावली 2003 के
प्रावधानों के अनुसार होगी।

टी०सी० जेम्स, उप सचिव

सं० 8/19/2000-पी०पी० एण्ड सी०/आई०आर०एस०—
राष्ट्रपति, कोन्सिटीट्यूशन के कार्यकरण की समीक्षा करने के
लिए राष्ट्रीय आयोग के पूर्व सचिव, डा० रघवीर सिंह को
15 सितम्बर 2003, पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा
डा० रघवीर सिंह द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने तक,
जो भी पहले हो, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चैन्नई का
उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

2. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में डा०
रघवीर सिंह को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें, जिनके द्वारा
वह नियंत्रित रहेंगे, "बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड" (अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की
अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के
अनुसार होगी।

टी० सी० जेम्स, उप सचिव

वाणिज्य विभाग
(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2003

सं. ए-12022/3/2001-संवर्ग—राष्ट्रपति, श्री बी.डी. आलम,
केन्द्रीय सचिवालय सेवा, को 16 सितम्बर, 2003 की पूर्वाह्न
से वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में उप सचिव के पद पर
नियुक्त करते हैं। विभाग में उनकी यह नियुक्ति 16 फरवरी,
2008 तक अथवा अगले आदेश होने तक होगी, इनमें जो कोई
भी पहले हो।

श्री आलम को समेकित वित्त स्कन्ध (पूर्ति प्रभाग), नई
दिल्ली में तैनात किया जाता है।

एस० दास, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2003

सं० 17/2003(ए-12022/6/2002-स्थापना)—राष्ट्रपति,
श्री प्रेम सागर, उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) को
वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव के रूप में 12,000-375-16500/-
रुपये के वेतनमान में 11 अगस्त, 2003 की पूर्वाह्न से 07 वर्षों
की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक अथवा उनकी
अधिवर्षिता की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक नियुक्त
करते हैं।

प्रेम कुमार गेरा, निदेशक

दिनांक 5 सितम्बर, 2003

सं० 18/2003 (ए-12026/2/2003-स्थापना) —
राष्ट्रपति, श्री बी० एस० भाटिया, निजी सचिव, श्रम मंत्रालय
को वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) के अतिरिक्त
निजी सचिव के रूप में दिनांक 24 मई, 2003 की पूर्वाह्न से
10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में नियुक्त
करते हैं।

2. श्री भाटिया की नियुक्ति समानावधि अथवा वस्त्र मंत्री
द्वारा इच्छित अवधि, इनमें जो भी पहले हो, तक रहेगी।

प्रेम कुमार गेरा, निदेशक

दिनांक 8 सितम्बर, 2003

सं० 19/2003(ए-19011/8/2003-स्थापना)—राष्ट्रपति,
श्री मृत्युंजय बेहरा, भारतीय आर्थिक सेवा के जूनियर टाइम
स्केल (जेटीएस) स्तर के अधिकारी को वस्त्र मंत्रालय में अनु-
संधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500 रुपये के
वेतनमान में 1 सितम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

प्रेम कुमार गेरा, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2003

सं० ए-11011/1/2003-स्था०—इस विभाग की दिनांक 20 जून, 2003 की समसंयक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन सी डी सी) के श्री देवाशीष भौमिक, कार्यक्रम अधिकारी का रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख को 3/2/2003 के स्थान पर 24/2/2003 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं० ए-32011/4/2002-स्था०—राष्ट्रपति, इस विभाग के नियमित संयुक्त औद्योगिक सलाहकार श्री पी०एन० माजी को 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में 1 अप्रैल, 2002 से आगामी आदेशों तक सभी अनुवर्ती लाभों सहित अपर औद्योगिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं० ए-11011/5/2003-स्था०—राष्ट्रपति, श्री रामा रमण, भा०प्र०से० (उ०प्र० : 87) को निदेशक के स्तर पर 4 सितम्बर, 2003 अपराह्न से 5 वर्षों के लिए, या जब तक मंत्री जी के निजी सचिव रहें, या आगामी आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (डा० छत्रपाल सिंह) के निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2003

सं० ए-12011/13/02-मा०सं० II—राष्ट्रपति श्री आर० बालासुब्रह्मण्यम, आईसीओएस (91) को उर्वरक विभाग के संबध कार्यालय उर्वरक उद्योग समन्वय समिति में संयुक्त निदेशक (एफएवए) (उपसचिव स्तर) के रूप में, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 1/8/2003 (पूर्वाह्न) से 4 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पवन वाधवा, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं० ए-12012/2/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री अमित प्रसाद, आई०डी०ए०एस० को कोयला राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद

सिंह पटेल) के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान पर 1 सितम्बर, 2003 (पूर्वा.) से प्रतिनियुक्ति और सह आवाधिक आधार पर मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा, जब तक उन्हें इनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं० 47 (G)/94-स्थापना (जिन्द II)—इस्पात मंत्रालय की सम संयुक्त दिनांक 23/1/2003 की अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में नियमित उप औद्योगिक सलाहकारों श्री ए०सी०आर० दास और श्री डी० काशिवा की इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर संयुक्त औद्योगिक सलाहकारों के रूप में स्थानापन्न की नियुक्ति को दिनांक 1 अगस्त 2003 से दिनांक 28 अगस्त 2003 तक बढ़ाते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 2 (13)/2002-स्थापना—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति, इस क्रम में श्री ए०सी०आर० दास और श्री डी० काशिवा, जो इस्पात मंत्रालय में उप औद्योगिक सलाहकार और तदर्थ आधार पर संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, को नियमित आधार पर इसी मंत्रालय में संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के रूप में दिनांक 29/8/2003 से और अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति पदोन्नति द्वारा हुई मानी गई है।

बाबू राम, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं० ए-32013/1/96-प्रशासन—राष्ट्रपति, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में कार्यरत श्री आर०एल० मीणा, उप निदेशक को उसी विभाग में 15 सितम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया अस्थायी व तदर्थ आधार पर 12000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० एस० बोध्याल, निदेशक

सं० ए-32013/1/96-प्रशासन—राष्ट्रपति, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में कार्यरत श्री एम०पी० फुलझे, उप निदेशक को उसी विभाग में 15 सितम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित

उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया अस्थायी व तदर्थ आधार पर 12000-375-16500/-रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० एस० बोथ्याल, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं० ए-32013/03/2001-प्रशा०-1 (ए)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कनिष्ठ विश्लेषकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से 8000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "बी" के रूप में तदर्थ आधार पर अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं :---

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	तदर्थ नियुक्ति की अवधि
1.	श्री ए० एन० सिंह	17-06-2003 से 03-01-2004 तक
2.	श्री राजीव खन्ना	17-06-2003 से 03-01-2004 तक
3.	श्री आर० के० जोशी	02-07-2003 से 03-01-2004 तक
4.	श्री आर० के० शर्मा	02-07-2003 से 03-01-2004 तक
5.	श्री राधे श्याम तिवारी	28-07-2003 से 03-01-2004 तक
6.	श्री वी० काम्पेला	29-08-2003 से 03-01-2004 तक
7.	श्री जी० हरीश कुमार	29-08-2003 से 03-01-2004 तक
8.	डा० ए० वी० पी० मिश्रा	03-09-2003 से 03-01-2004 तक
9.	श्री सोहन बीर सिंह	03-09-2003 से 03-01-2004 तक

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 सितम्बर, 2003

सं० ए-12026/7/2002-भा० व० से०-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के असम-मेघालय संवर्ग के 1989 बंच के अधिकारी श्री एस० एम० सहाय को 28 जुलाई, 2003 पूर्वाह्न से मुख्य वन संरक्षक (मध्य) लखनऊ के कार्यालय में चार वर्ष की अवधि के लिए उप वन संरक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पाराशर, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर, 2003

सं० ए-19011/13/2003-भा० व० से०-I -- राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के 1985 बंच के अधिकारी श्री आर के श्रीवास्तव को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में 20 मई 2003 पूर्वाह्न से मुख्य वन संरक्षक (मध्य) के कार्यालय में 5 वर्ष की अवधि के लिए वन संरक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पाराशर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं० 17013/11/2003-भा० व० सेवा-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदीनति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा के निम्नलिखित चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वर्ष 2002 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपविनियम (1) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा का महाराष्ट्र संवर्ग आवंटित करते हैं :

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	वी० पी० वालिम्बे	1-6-1957
2.	अनवर जमाल अहमद	12-3-1960
3.	वी० जे० बाघमारे (अनुसूचित जाति)	11-7-1957
4.	एस० भू० द्विवेदी	12-3-1960

जी० देवनानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 सितम्बर, 2003

सं० ए 12025/9/2001-सी० एच० एस०-II--
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर
डा० अतुल मोहन कोछर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्या-
पनेत्तर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर परि-
वीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 30 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न
से आगामी आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपये
के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में
त्वचाविज्ञानी के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

दिनांक 15 सितम्बर, 2003

सं० ए० 12025/37/95-सी० एच० एस०-III--राष्ट्रपति,
संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० विष्णु प्रसाद एन०
आर० को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसंवर्ग के विशेष-
ज्ञ ग्रेड-II के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें
29-11-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक जवाहर
लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,
पांडिचेरी में सर्जरी के सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात करते
हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं० ए-12025/409/91-सी० एच० एस०-I--राष्ट्रपति, संघ
लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० श्याम सुन्दर साहू को
22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय
स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/-
रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर
नियुक्त करते हैं। डा० श्याम सुन्दर साहू को उसी तिथि से श्रम
कल्याण संगठन, भुवनेश्वर क्षेत्र के अधीन चिकित्सा अधिकारी के
रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

संख्या ए० 12025/91/94-सी० एच० एस०-I--राष्ट्रपति,
संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० दीपक दत्तात्रेय
तंडेल को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों

तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में
2200-4000 रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी
आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० दीपक दत्तात्रेय तंडेल को
उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुम्बई के अधीन
चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं० ए० 1/2025/174/97-सी० एच० एस०-I--राष्ट्रपति,
संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० क्राइस्ट आलोक
इरियस टिकी को 25-11-97 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों
तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में
8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार
पर नियुक्त करते हैं। डा० क्राइस्ट आलोक इरियस टिकी को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा
अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं० ए० 32012/1/2002-भाचिप (स्था० I)--अपनी
पदोन्नति के उपरांत डा० एम० के० नेसारी ने 30 अप्रैल, 2003
के पूर्वाह्न को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयु०) के पद का
कार्यभार छोड़ दिया और 30 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न से
अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे में
12,000-325-16,500 रु० के वेतनमान में + प्रेक्टिस बंदी
भत्ता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयु०) के पद का कार्यभार
ग्रहण किया।

एन० के० लखनपाल, अवर सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं० ए० 22012/2/99-भाचिप (ई-I)--डा० एम०
मुत्तुळ्ळन ने अपना स्थानांतरण कर दिए जाने के परिणाम-
स्वरूप 4 मार्च, 2003 के अपराह्न को मुख्य चिकित्सा अधि-
कारी (आयु०), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के
पद का कार्यभार छोड़ दिया और 26 मार्च, 2003 के

पूर्वाह्न को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयु) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बेंगलूर के पद का कार्यभार संभाल लिया।

एन०के० लखनपाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2002

सं० 29-4/2002-पौध संरक्षण-II-राष्ट्रपति, पौध संरक्षण, संगरोध एवं संग्रहण निदेशालय में नियमित सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) श्रीमती पम्मी शर्मा को स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 18 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी निदेशालय में 10,000-15,200/-रु० के वेतनमान में उप निदेशक (कीट विज्ञान) नियुक्त करते हैं।

सतवन्त सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 04 सितम्बर 2003

सं० ए-11014/6/1998-एम-1—कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली की 21 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० ए-11014/1/1998-बि०-1 के अंतर्गत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में विपणन अधिकारी (समूह II) के पद के लिए दिनांक 1-1-1996 से 8000-275-13500 रु० का संशोधित वेतनमान दिए जाने के फलस्वरूप इन पदों का वर्गीकरण समूह 'क' पदों के रूप में किया जाता है।

सुदेश कुमार गाडी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं० 12022/3/2003-स्था-1—राष्ट्रपति श्री पी०के० शर्मा, आई०एफ०एस० (उ०प्र०:86) को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में 12000-375-16500/-रु० के वेतनमान में केन्द्रीय स्टार्फिंग स्कीम के अंतर्गत 9-9-2003 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए या आगामी ओदशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं० 2-5/2003-एन० आर०एम०-II—राष्ट्रपति, बंगलूर क्षेत्रीय केन्द्र, अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण के सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, श्री बाबू राम वर्मा को इसी संगठन में स्थानापन्न प्रीम्युनि के आधार पर 10,000-325-

15,200 रुपये के वेतनमान में मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के पद पर 5 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

सतपाल, अवर सचिव

(कृषि विपणन प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं० 32013/2/2001-एम-1—इस मंत्रालय की दिनांक 1 फरवरी, 2002 की अधिसूचना सं० 32013/2/2001-एम-1 के संदर्भ में राष्ट्रपति कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के समबद्ध कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में अपर कृषि विपणन सलाहकार डा० जी० आर० भाटिया की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 14 जनवरी, 2003 (पूर्वाह्न) के पश्चात एक वर्ष की और अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस० के० गाडी, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 2003

सं० 13015/1/2002-हिन्दी—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, आंचलिक कार्यालय, मुम्बई जिसके 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

पी० के० जाजोरिया, निदेशक (प्रशा०)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं० ए-32014/8/2002-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, इस विभाग में प्रधान निजी सचिव श्री अमर सिंह की बरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 1-7-2003 से 30-9-2003 तक की 3 माह की अगली अवधि या नियमित पदधारी द्वारा पदभार संभाल लेने, इनमें से जो भी पहले हो, तक आगे बढ़ाते हैं।

2. श्री अमर सिंह की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे इन्हें बरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में बने

रहने, नियमितकरण या वरिष्ठता के बारे में कोई दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

सतीश बघवा, अवर सचिव (प्रशा०-II)

दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं० ए-12025/1/99-प्रशा०-2--इस विभाग की दिनांक 27 अगस्त 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति सहर्ष, दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री चन्द्रपाल सिंह वर्मा, को रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, एक और वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् पांचवें वर्ष) दिनांक 28-10-2003 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के, प्रतिनियुक्ति आधार पर उसी विभाग में सहायक महा-निदेशक (सर्तकता अनुश्रवण) के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

सतीश बघवा, अवर सचिव (प्रशा०-2)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं० 41-04/2001-प्रशा०-I/IV--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना व समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन के निम्नलिखित अभियंताओं की इसी विभाग में प्रभारी अभियंता/सहायक बेतार सलाहकार के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई अवधि के लिए या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से बने रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	से	तक
1.	श्री पी० डी० अम्बडे	30-06-2003	29-12-2003
2.	श्री गुलाब चन्द	21-06-2003	20-12-2003
3.	श्री ए० के० भोला	01-07-2003	31-12-2003
4.	श्री आर० परमानाथन	14-07-2003	13-01-2004
5.	श्री के० एस० कंधारी	17-07-2003	16-01-2004
6.	श्री बीरेश गोयल	23-08-2003	22-02-2004
7.	श्री पी० कार्मगम	20-06-2003	19-12-2003

बिबु राय

अवर सचिव (प्रशा०-IV)

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं० 20-/2003-एस टी जी-II--अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित टीईएस समूह-ख अधिकारियों की मृत्यु उनके सामने दर्शाई गई तिथि को हो गई :

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्टाफ सं०	सर्किल का नाम	मृत्यु की तिथि
1	श्री बी० आर० प्रजापति	31087	एमटीएनएल, मुंबई	15-05-03
2	श्रीमति डी० विजयामा	12107	केरल	10-07-03
3	श्री बी० पी० तेलरांधे	105172	महाराष्ट्र	05-08-03

राम अवतार, अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० ए-12018/5/2001-प्रशा०/एसएफ एस/एस एस--राष्ट्रपति, श्री आर० डी० गुप्ता, सहायक सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में विशेष कार्याधिकारी (आयुक्त) के पद पर, रुपये 10,000-325-15200/-के वेतनमान में जमा रुपये 1000/-प्रतिमाह विशेष वेतन पर प्रतिनियुक्ति आधार पर 5 अगस्त 2003 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवानिवृत्ति अर्थात् 31-07-2007 तक, नियुक्त करते हैं।

एल० हॉकिंग
अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2003

सं० ए-12023/1/2003-स्था-1--राष्ट्रपति, डा० शालिनी रजनीश, भा० प्र० से० (कर्नाटक : 89) को सह-अवसानी आधार पर दिनांक 25-5-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक भाननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाई० नाईक) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ० एन० सी० कोशिक
अवर सचिव

सं० ए-12023/1/20-03-स्था०-1--राष्ट्रपति; निवासी आयुक्त का कार्यालय, गोवा में कनिष्ठ सहायक श्री टी० बी० राघवन को सह-अवसानी आधार पर दिनांक 25-5-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद वाई० नाईक) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

पौत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं० ए-12026/1/2003-पी ई-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री एस० कास्पर राज, कार्यकारी अभियंता (सिविल), अंडमान, लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स 30-6-2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये।

एन० बारिक, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० 15/2003, फा० सं० ए०-35018/2/2002-प्रशा-I-- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार

एतद् द्वारा श्री जी० के० फरलिया को, जो केन्द्रीय विद्युत अभियंत्रिकी (ग्रुप ए) सेवा के मुख्य अभियंता/सदस्य सचिव (आरईडी) श्रेणी के अधिकारी हैं, रु० 22400-525-24500 के वेतनमान में 08-09-2003 पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि तक के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के पदेन अपर सचिव का दर्जा प्रदान करने के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (हाइड्रो) नियुक्त करती है।

2. सदस्य (हाइड्रो) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में श्री जी० के० फरलिया की नियुक्ति का विनियमन विद्युत अधिनियम, 2003 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों हेतु नियम एवं शर्तें) नियमावली, 1988 जो समय-समय पर संशोधित हैं, के आवश्यक प्रावधानों द्वारा किया जाएगा।

वी० सी० काजला, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं० 7/2003, फाइल सं० 2/1/2001-प्रशा०-1-- राष्ट्रपति, श्री भरत मोर्य को विशेष तकनीकी सहायक के पद पर 6500-200-13,500/- रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष के लिए दिनांक 29-11-2002 (अम०) से जल संसाधन मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 18th September 2003

No. RS/3(v)/2003/31-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri S. K. Garg, Chief Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Principal Chief Parliamentary Reporter in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 16th September, 2003, until further orders.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 16th September 2003

No. A-12026/4/2002-Admn.I(L.D.).—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Diwakar Singh to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15200/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 16th September 2003 and until further orders.

Shri Diwakar Singh will be on probation for a period of two years with effect from 16th September 2003.

M. DAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th September 2003

No. A-32014/4/99-Admn.IV(LA).—The President is pleased to appoint Smt. Krishna Kalra, Assistant in Legislative Department of CSS Cadre of Ministry of Law & Justice as Section Officers on ad-hoc basis in Central Agency Section of the Department of Legal Affairs for a period of two months w.e.f. the forenoon of 21st August 2003 or till availability of vacancy in the grade, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not bestow on her any claim for regular appointment whatsoever to the Section Officer's Grade of the CSS nor will the services rendered by her count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

RATNA LALITHA, Under Secy.

No. A.12034/1/2003-Admn.IV(LA).—The President is pleased to appoint Shri Chaman Lal Guleria, Section Officer, Department of Commerce, as Assistant Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Shri Arun Jaitley) in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500/- w.e.f. 05.09.2003(F/N). The appointment

1—262G/2003

of Shri Chaman Lal Guleria is at the pleasure of, and co-terminous with the tenure of Shri Arun Jaitley as Minister of Law & Justice.

RATNA LALITHA, Under Secy.

No. A-32014/4/99-Admn.IV (LA).—Pursuant to the Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/5/2003-C.S.I. dated 28/29.08.2003, the President is pleased to accord ex-post facto approval for continuation of officiation of the following officers as ad-hoc Section Officers in the Department of Legal Affairs and Legislative Department of CSS cadre of the Ministry of Law & Justice for the period mentioned against each or till such time a regular/Select List officer becomes available whichever is earlier:—

S. No.	Name	Department	Extension	
			From	To
1.	Kanwarjeet Singh	Legal Affairs	10.04.2001	31.12.2003
2.	V. P. Lazer	Legislative Department	21.06.2002	31.12.2003
3.	A. K. Pandey	Legislative Department	22.07.2002	31.12.2003

RATNA LALITHA, Under Secy.

The 16th September 2003

No. A-12023/11/2003-Admn.III(LA).—The President is pleased to appoint Dr. N. M. Ghatate, Senior Advocate, Supreme Court of India as Vice-Chairman of the 17th Law Commission of India with effect from 1st September, 2003 for the three year term of the Law Commission upto 31st August, 2006.

RATNA LALITHA, Under Secy.

No. A-12023/11/2003-Admn.III(LA).—The President is pleased to appoint Shri Justice M. Jagannadha Rao, retired Judge, Supreme Court of India as Chairman of the 17th Law Commission of India with effect from 1st September, 2003 for the three year term of the Law Commission upto 31st August, 2006.

RATNA LALITHA, Under Secy.

No. A-12023/11/2003-Admn.III (LA).—The President is pleased to appoint Shri S. Muralidhar, Advocate, Supreme Court as part-time Member of the 17th Law Commission of

India with effect from 1st September, 2003 for the three year term of the Law Commission upto 31st August, 2006.

RATNA LALITHA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 15th September 2003

No. 14046/569/2003-UTS-II.—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has accepted the technical resignation tendered by Shri Ramawatar Sharma, Probationer from the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service with immediate effect.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi-1, the 19th September 2003

No. 14031/5/2003-UTS.I.—The President is pleased to permit Shri B. Sanghnuna, an IAS officer of 1991 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with immediate effect in accordance with Rule 16(2) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

K.K. Kalra, Under Secy.

NATIONAL CRIMES RECORDS BUREAU

New Delhi-110 066, the 10th September 2003

No. 67/1/2000-Ad.I/NCRB.—The President is pleased to appoint Shri V. S. Yadav, IPS (MT : 87) to the post of Deputy Director in the National Crime Records Bureau (MHA) on central deputation for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier with effect from the forenoon of 10th September, 2003 in the scale of pay of Rs. 16400—20000/-.

B.S. DHUPIA
Asstt. Director (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 17th September 2003

No. A-19011/2/2003-AR(AD.I).—The President is pleased to appoint Shri P.I. Suvrathan, IAS (HP : 1972) as Additional Secretary in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 15 September, 2003 until further orders.

R. SANEHWAL
Under Secy.

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi, the 19th September 2003

No. 14012/7/2002-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Chattisgarh with effect from the dates shown against them:—

S. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Sh. Subodh Kumar Singh	1997	7.9.1999
2.	Sh. S.R. Raju	1998	7.9.2000

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

New Delhi, the 18th September 2003

No. A.32013/10/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Manjulika Gautam, IAS (UP : 72), as Additional Secretary in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 9th September, 2003 until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 18th September 2003

No. 39019/06/98-Estt.(B).—The President is pleased to appoint Shri Mata Prasad, Member, Union Public Service Commission as Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 08th September, 2003.

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

No. 39019/06/98-Estt.(B).—Shri P.C. Hota has demitted the office of Chairman, Union Public Service Commission consequent upon expiry of his term w.e.f. afternoon of 08th September, 2003.

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th February 2003

No. 2/PA-II/2003.—On the basis of the results of the Civil Services (Main) Examination, 2001 held by the Union Public Service Commission, New Delhi, the President is pleased to appoint the following 16 (Sixteen) candidates as Indian Foreign Service (IFS) Probationers in the Ministry of External Affairs, New Delhi, with effect from the date shown against each :

S. No.	Name of the Candidate	Date of Appointment
1	2	3
	S/Shri	
1.	Alok Ranjan Jha	02.09.2002(FN)
2.	Vidhu P. Nair	02.09.2002(FN)
3.	Dr. Srinivasa, K.J.	02.09.2002(FN)

1	2	3
	(S/Shri)	
4.	Dr. Ambule Shilpak Namdeo	02.09.2002(FN)
5.	Prakash Gupta	02.09.2002(AN)
6.	Jitender Pal Singh	02.09.2002(FN)
7.	Ajay Kumar	02.09.2002(FN)
8.	Bablu Swaika	02.09.2002(FN)
9.	Mohit Yadav	12.09.2002(FN)
10.	Nikhilesh Chandra Giri	02.09.2002(FN)
11.	Ms. Anju Kumari	02.09.2002(FN)
12.	Binaya Srikanta Pradhan	05.09.2002(FN)
13.	S. Janakiraman	02.09.2002(FN)
14.	Smt. Alpana Dubey	11.09.2002(AN)
15.	Tshering Wangchuk Sherpa	02.09.2002(FN)
16.	Vishwesh Negi	02.09.2002(FN)

2. On their appointment, the above mentioned sixteen officers assumed charge as Indian Foreign Service Probationers (2002), with effect from the date shown against each officer.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 13th May 2003

No. 06/PQ-II/03.—The President is pleased to confirm the following officers of the Indian Foreign Service 1999, batch in the Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names:

S. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
1.	Shri R. Gaurav Shresth	1999	04.11.2002
2.	Ms. Devyani U. Khobragade	1999	04.11.2002

2. Consequent upon their confirmation in the Indian Foreign Service, the officers are promoted as Second Secretaries/Under Secretaries in the Junior Scale of the service in their respective assignment with effect from the dates mentioned against their names.

B.N. REDDY, Dy. Secy.

The 22nd May 2003

No. 07/PA-II/2003.—The President is pleased to appoint the following officers of the Indian Foreign Service of 1998

batch in the Senior Scale of Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names:

S. No.	Name of the Officer	Batch	Date of appointment in the Senior Scale
	(S/Shri)		
1.	Prasant Agarwal	1998	01.07.2002
2.	Piyush Srivastava	1998	01.07.2002
3.	Aveg Agarwal	1998	01.07.2002
4.	Manish Gupta	1998	01.07.2002
5.	Aseem Raja Mahajan	1998	01.07.2002
6.	U.S. Rawat	1998	01.07.2002
7.	A.A. Dimri	1998	01.07.2002
8.	Dr. Deepak Mittal	1998	01.07.2002
9.	G. Balasubramanian	1998	01.07.2002
10.	Vipul	1998	01.07.2002
11.	R.K. Jaiswal	1998	01.07.2002
12.	K. Nagaraj Naidu	1998	31.07.2002
13.	Ashok Kumar	1998	01.07.2002
14.	Biraja Prasad	1998	01.07.2002
15.	Sapkal V. Vida	1998	01.07.2002
16.	V. Vanlalvawna	1998	01.07.2002

B.N. REDDY, Dy. Secy.

The 9th June 2003

No. 11/PA-II/03.—4Consequent to the review of Panels for promotion to Grade-I of IFS(B) for the years 1983 to 1997-98 due to judicial pronouncement in the case of Sanjay Vyas & Ors vs Union of India and Ors. (OA No. 567/1999), the President is pleased to appoint Shri Babu Ram in Grade-I of IFS (B) with effect from 9th July 1991.

2. The above appointment will be subject to the final decision on the following court cases:

(a) OA No. 956/2002—Ms. Manju & Ors. vs. UOI.

(h) OA No. 1388/2002—Smt. Subashini & Ors. vs. UOI.

B.N. REDDY, Dy. Secy.

The 22nd July 2003

No. Q/PA-I/29/2003.—The President is pleased to appoint Dr. A.V.S. Ramesh Chandra presently in the Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service

(IFS) to officiate in Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 1st July, 2003.

S. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Dr. A.V.S. Ramesh Chandra	Interim Consul General CGI, Jalalabad.

2. On promotion to Grade-IV of IFS, Dr. A.V.S. Ramesh Chandra relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon of 01.07.2003 and assumed charge of the post in Grade-IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B.N. REDDY
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/30/2003.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Jain presently in the Grade-III (In-Situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 1st July, 2003.

S. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri Sunil Jain	Minister, EOI, Washington	01-07-2003

2. On promotion to Grade-III of IFS, Shri Sunil Jain who is already in Grade-III of IFS on in-situ basis, assumed charge of the post in Grade-III of the IFS, with effect from the forenoon of the 1st July, 2003 on regular basis.

B.N. REDDY
Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 5th August 2003

No. Q/PA-I/35/2003.—On attaining the age of superannuation, Shri Prabhakar Menon, Ambassador of India to Ireland (Dublin), retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of July 31, 2003.

B.N. REDDY
Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 8th August 2003

No. Q/PA-I/36/2003.—The President is pleased to appoint Shri T.C.A. Rangachari presently an officer in the Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of 1st August, 2003:—

S. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri T.C.A. Rangachari	Ambassador, EOI, Berlin.	01-08-2003

2. On promotion to Grade-I of IFS, the Officer relinquished charge of the Post in Grade-II with effect from forenoon of 01.08.2003 and assumed charge of the post in Grade-I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B.N. REDDY
Dy. Secy. (FSP/Cadre)

New Delhi, the 26th August 2003

No. 15/PA-II/2003.—On attaining the age of superannuation, Shri Ghansham Das, formerly Second Secretary (PPS) at High Commission of India, Nicosia, retired from Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) on the afternoon of 31st July, 2003.

R.N. VATS
Under Secy. (PA-II)

New Delhi, the 15th September 2003

No. D.III/460/CF-02/2003.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Heinz Kopp as Consul General of the Federal Republic of Germany in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Heinz Kopp comprises the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.

P.P. SIRCAR
Dy. Chief of Protocol (F)

New Delhi, the 6th June 2003

No. 08/PA-II/2003.—Consequent upon change of his name, Dr. Pankaj, Deputy Secretary, in the Indian Foreign Service (1991 batch) shall henceforth be known as Dr. Pankaj Sharma.

ANIL K. KALRA
Administrative Officer (PA-II)

New Delhi, the 27th May 2003

No. 2/PF/2003.—The President is pleased to appoint Shri Narinder Singh, Director (Legal & Treaties) in Legal and Treaties Division as Joint Secretary (Legal & Treaties) in this Ministry with effect from 30.4.2003 (FN) on ad-hoc basis. Shri Narinder Singh will be reverted to the post of Director in the L & T Division when Dr. S. Rama Rao assumes charge of the post on his return from his deputation in WIPO or until further orders.

K.K. SAINI
Administrative Officer (PF)

The 2nd July 2003

No. 03/PF/2003.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Chopra as First PA to the Minister of State for External Affairs (Shri Vinod Khanna) with effect from 20th February 2003. The appointment of Shri Ashok Kumar Chopra as First PA to the Minister of State for External Affairs (Shri Vinod Khanna) will be at the discretion of and co-terminus with the Minister of State for External Affairs (Shri Vinod Khanna).

2. Shri Ashok Kumar Chopra joined duty as First PA in the Office of the Minister of State for External Affairs (Shri Vinod Khanna) in the forenoon of 20th February 2003.

K. K. SAINI
Administrative Officer (PF)

New Delhi, the 4th September 2003

No. 26/PB2003.—On attaining the age of superannuation, Shri Gopal Dass Grover, Private Secretary in this Ministry retired from Government Service in the afternoon of 31st August 2003.

BHUPENDER KUMAR
Administrative Officer (PB)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 26th August 2003

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE
ESTABLISHMENTS

Subject : Grant of Non-Functional Selection Grade to Shri A.K. Srivastava, Joint Commissioner.

No. 18/2003(F. No. A-32012/10/1999-Ad.II).—The President is pleased to grant Non-Functional Selection Grade (Rs. 14300-400-18300/-) in the Junior Administrative Grade to Shri A.K. Srivastava an IC&CES officer with effect from 6.6.2000 (i.e. from the date of his immediate Junior, Shri Talkeswar Singh was granted NFSG) purely on ad hoc basis and subject to the final outcome of the W.P. No. 1405/2003 in Delhi High Court.

2. The order has no bearing on the inter-se-seniority of officers in the Junior Administrative Grade.

K. KIPGEN
Under Secy.

The 4th September 2003

No. 23 of 2003 (F. No. A-38012/9/2003-AD.II).—The President is pleased to accept the withdrawal notice of voluntary retirement of Shri R.G. Bandodkar, ACC-Mumbai from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 01.09.2003 (FN).

K. KIPGEN
Under Secy.

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 3rd September 2003

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 12 (F.No. A-32011/1/2002-AD.VI).—The following Joint Commissioners of Income Tax are hereby placed in the Selection Grade (Non-Functional) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from 1st January 2002:—

S. No.	Name of the Office.	Code No.
	(S/Shri/Ms)	
1	Krishan Mohan Dixit	89006
2	Biman Bhattacharjee	89505
3	Ramita Arora	89007
4	Yogender Choudhry	89029
5	Sandeep Chauhan	89059
6	Santau Kumar Saikia	89112
7	Ravindra Singh Rawal	89116
8	J.A. Raut	89585

P. C. BHATT
Under Secy.

No. 13. (F.No. A-32011/1/2003-AD.VI).—The following Joint Commissioners of Income Tax are hereby placed in the Selection Grade (Non-Functional) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from the date(s) indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Code	Date from which Placed in the Selection Grade (Non-Functional)
1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
1.	Rakesh Mishra	87010	01.01.2003
2.	Shriram Barathan	89086	01.01.2003
3.	M. Muniyandi	90562	01.01.2003
4.	Dhirendra Kumar Mishra	90001	01.01.2003

1	2	3	4	1	2	3	4
	S/Shri/Ms.				S/Shri/Ms.		
5.	Narender Kumar Chand	90002	01.01.2003	46.	Shrikant Kumar Ambastha	90030	01.01.2003
6.	Ankur Garg	90003	01.01.2003	47.	Capt. ^a Pramod ^b Kr. Bajaj	90031	01.01.2003
7.	Syed Nasir Ali	90004	01.01.2003	48.	R.S. Sabnis	90519	01.01.2003
8.	M. Anil Kumar	90005	01.01.2003	49.	Vijay Varma	90032	01.01.2003
9.	R.N. Bhalerao	90503	01.01.2003	50.	A.B. Joshi	90520	01.01.2003
10.	Arneja Ravjit Singh	90006	01.01.2003	51.	S. Balasubramanian	90033	01.01.2003
11.	Mona Singh	90007	01.01.2003	52.	Vimalendu Verma	90034	01.01.2003
12.	I.B.Shaikh	90504	01.01.2003	53.	Kavita Pandey	90035	01.01.2003
13.	Lakshman Kumar Agrawal	90008	01.01.2003	54.	A.S. Prabhu	90521	01.01.2003
14.	V. Surya Narayanan	90505	01.01.2003	55.	Amit Mohan Govil	90036	01.01.2003
15.	Rupinder Brar	90009	01.01.2003	56.	Peeyush Jain	90037	01.01.2003
16.	T.P. Jain	90506	01.01.2003	57.	Adarsh Kumar Modi	90038	01.01.2003
17.	Ajit Kumar Jain	90010	01.01.2003	58.	Rajeshwar Yadav	90039	01.01.2003
18.	M. Vijayan	90507	01.01.2003	59.	Sibendu Moharana	90040	01.01.2003
19.	Mohd. Usman	90011	01.01.2003	60.	Sulekha Verma	90041	01.01.2003
20.	Dr. Shikha Darbari	90012	01.01.2003	61.	Debashish Chanda	90042	01.01.2003
21.	V.G. Gore	90508	01.01.2003	62.	A.K.G. Nair	90526	01.01.2003
22.	Monica Bhatia	90013	01.01.2003	63.	Lalit K. Singh Dehiya	90043	01.01.2003
23.	Prafulla Kumar Prusty	90014	01.01.2003	64.	Anita Sinha	90044	01.01.2003
24.	Sasmita Misra	90015	01.01.2003	65.	Ashok Kumar ^a Saroha	90045	01.01.2003
25.	Debjyoti Das	90016	01.01.2003	66.	R.V. Shirsat	90528	01.01.2003
26.	Aparna Mohania	90017	01.01.2003	67.	Anand Rajeshwar Baiwar	90046	01.01.2003
27.	Suman Gupta	90509	01.01.2003	68.	Arun Dewan	90047	01.01.2003
28.	Baldeb Kr. Bardwaj	90511	01.01.2003	69.	Asit Kumar Mohapatra	90048	01.01.2003
29.	Kumar Sanjay	90018	01.01.2003	70.	Anand Jha	90049	01.01.2003
30.	Ramesh Narain Bhargava	90512	01.01.2003	71.	B.D. Khengar	90531	01.01.2003
31.	Surbhi Varma Garg	90019	01.01.2003	72.	Nikhil Pandit	90051	01.01.2003
32.	Jyoti Shankar	90513	01.01.2003	73.	S.J. Trivedi	90532	01.01.2003
33.	Madnesh Kr. Mishra	90020	01.01.2003	74.	Anil Kumar Singh	90052	01.01.2003
34.	Suman Sharma	90021	01.01.2003	75.	D.M. Kathiwala	90533	01.01.2003
35.	S.H. Shirudkar	90514	01.01.2003	76.	Asit Singh	90053	01.01.2003
36.	Enjeti Sri Nagendra Prasad	90022	01.01.2003	77.	Sunil Bajpai	90054	01.01.2003
37.	Sanjay Kumar Sah	90023	01.01.2003	78.	Sanjay Rai	90055	01.01.2003
38.	V.D. Dantkale	90515	01.01.2003	79.	Ram Bilas Mishra	90056	01.01.2003
39.	Chandana Ramachandran	90024	01.01.2003	80.	Parneet Suri	90057	01.01.2003
40.	J. Krishna Kishore	90025	01.01.2003	81.	Pawan K. Kumar	90058	01.01.2003
41.	Amal Pusp	90026	01.01.2003	82.	G.D. Goel	90535	01.01.2003
42.	A.H. Khan	90516	01.01.2003	83.	Sudh ^a rajan Senapati	90059	01.01.2003
43.	Ajay Goyal	90027	01.01.2003	84.	S.S. Goyal	90536	01.01.2003
44.	Amitav	90028	01.01.2003	85.	B.N. Tiwari	90537	01.01.2003
45.	Prasenjit Singh	90029	01.01.2003	86.	M.K. Jha	90061	01.01.2003
				87.	Sanjay Shivam	90062	01.01.2003
				88.	Anandi Nath Mishra	90063	01.01.2003

1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
89.	Manish Gupta	90064	01.01.2003
90.	Alok Kumar	90065	01.01.2003
91.	Ruchika Chaudhry	90066	01.01.2003
92.	N. Krishnan	90540	01.01.2003
93.	Satyendra Kr. Mishra	90067	01.01.2003
94.	Bhupendra Kumar Gupta	90068	01.01.2003
95.	M. Naraynan	90541	01.01.2003
96.	Shantanu Dhamija	90069	01.01.2003
97.	Damodar Prasad Gupta	90070	01.01.2003
98.	V. Venkataraman	90542	01.01.2003
99.	Pratima Kaushik	90071	01.01.2003
100.	J. Thyagarajan	90543	01.01.2003
101.	Mukesh Verma	90072	01.01.2003
102.	Aparna Mittal	90074	01.01.2003
103.	Suraj Narayan Singh	90545	01.01.2003
104.	Pradhan Sandip Mukundro	90075	01.01.2003
105.	Anupama Shukla	90076	01.01.2003
106.	Debnath Mukhopadhyay	90547	01.01.2003
107.	Sushma Singh	90077	01.01.2003
108.	Subimal Roy	90548	01.01.2003
109.	Sanchita Srivastava	90078	01.01.2003
110.	Ashok K. Jha	90079	01.01.2003
111.	Neera Malhotra	90080	01.01.2003
112.	B.V. Bhaskar	90550	01.01.2003
113.	Mala Paropkari	90081	01.01.2003
114.	Awadesh Kumar	90551	01.01.2003
115.	Farhat Hussain Qureshi	90082	01.01.2003
116.	Adhir Jha	90083	01.01.2003
117.	Shashi Bhusan Prasad	90084	01.01.2003
118.	Joé Sebastian	90085	01.01.2003
119.	N.D. Ganvir	90552	01.01.2003
120.	Narender Kumar	90086	01.01.2003
121.	Amitabh Shukla	90087	01.01.2003
122.	M.D. Soyantar	90554	01.01.2003
123.	Mahesh Kumar	90088	01.01.2003
124.	D.S. Sallan	90555	01.01.2003
125.	Vijay Kumar	90089	01.01.2003
126.	G.T. Venkateshwar	90090	01.01.2003
127.	Sanjay Prasad	90091	01.01.2003
128.	Syed Mohammad Jawad Abidi	90092	01.01.2003
129.	Shantam Bose	90093	01.01.2003
130.	Vismita Tej	90094	01.01.2003

1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
131.	S.R. Khokate	90561	01.01.2003
132.	Reema Hota Singh	90095	01.01.2003
133.	Kamlesh Chandra Varshney	90096	01.01.2003
134.	Manoj Pal Singh	90097	01.01.2003
135.	Suresh Chandra	90564	01.01.2003
136.	Devinder S. Kalayan	90098	01.01.2003
137.	Vudiga Madhu Vani	90099	01.01.2003
138.	Bidhan Ch. Saha	90566	01.01.2003
139.	Laxman Singh	90100	01.01.2003
140.	Mahen Nathabhai Maurya	90101	01.01.2003
141.	Ramesh Chander	90102	01.01.2003
142.	Abhijeet Kr. Nabkhadh	90103	01.01.2003
143.	Nivedita Biswas Samaddar	90104	01.01.2003
144.	Rajpal Singh	90570	01.01.2003
145.	Dirisam Sudhakara Rao	90105	01.01.2003
146.	Dr. G.M. Doss	90107	01.01.2003
147.	Gautam Mandal	90108	01.01.2003
148.	G. Srinivasa Rao	90109	01.01.2003
149.	Jagadish	90110	01.01.2003
150.	Subhash Bains	90111	01.01.2003
151.	T.S.N. Murty	90112	01.01.2003
152.	Avinash Kumar	90113	01.01.2003
153.	Pirithi Lal	90114	01.01.2003
154.	Dasi Sadhu Sunder Singh	90115	01.01.2003
155.	B. Arulappa	90116	01.01.2003
156.	Dr. Mitha Lal Meena	90117	01.01.2003
157.	Pathlavath Peerya	90118	01.01.2003
158.	Suneel Dutt	90119	01.01.2003
159.	Priscilla Singsit	90120	01.01.2003
160.	Lal Chand	90121	01.01.2003
161.	N. Languah	90123	01.01.2003
162.	Ram Bilash Meena	90124	01.01.2003
163.	John Vincent Donkumar Langstieh	90125	01.01.2003

P. C. BHATT
Under Secy.

No. 14. (F. No. A-32012/5/2002-AD.VI).—The following Assistant Commissioners of Income Tax are hereby appointed to officiate as Deputy Commissioners of Income

Tax in the pay scale of Rs. 1000-325-15200 from the date(s) mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Code	Date Effect From
1	2	3	4
S/Shri/Ms.			
1.	P.H. Nargundkar	94552	01.10.2001
2.	P.K. Bajpai	94580	01.10.2001
3.	Alok Mishra	96514	01.10.2001
4.	Shyam Lal	96524	01.10.2001
5.	Abhay Kumar Thakur	97001	01.10.2001
6.	Sandeep Goel	97002	01.10.2001
7.	D.M. Halagiyavar	97503	01.10.2001
8.	Mrs. Anusha Khurana	97003	01.10.2001
9.	Ritesh Parmar	97004	01.10.2001
10.	Dipak Kr. Nandy	97505	01.10.2001
11.	Balbir Singh	97506	01.10.2001
12.	Deepak Garg	97006	01.10.2001
13.	N.N. Jain	97507	01.10.2001
14.	Smt. Garima Singh	97007	01.10.2001
15.	Mrs. Nidhi Singh	97008	01.10.2001
16.	Pravat Ranjan Chakravorty	97509	01.10.2001
17.	Prabhat Kumar Gupta	97009	01.10.2001
18.	Dulal Ch. Mukherjee	97510	01.10.2001
19.	Mudit Nagpal	97010	01.10.2001
20.	D. Prabhakar Reddy	97011	01.10.2001
21.	Murari Mohan Bhattacharya	97512	01.10.2001
22.	Jitendra M. Yadav	97012	01.10.2001
23.	Sadhan Bhattacharya	97513	01.10.2001
24.	H. Phani Raju	97013	01.10.2001
25.	Smt. Rashmita Rani	97014	01.10.2001
26.	K.V. Ananthanarayanan	97515	01.10.2001
27.	Rajeev Kumar Sahu	97015	01.10.2001
28.	D. Suresh Babu	97516	01.10.2001
29.	Jagdish Prasad Jangid	97016	01.10.2001
30.	Radhe Shyam Singh	97517	01.10.2001
31.	Samir Tekriwal	97017	01.10.2001
32.	Jibachh Mahto	97518	01.10.2001
33.	Kum. A.S. Bindhu	97018	01.10.2001
34.	K. Somasundram	97519	01.10.2001
35.	Dr. Pallavi H. Kamble	97019	01.10.2001
36.	K.K. Mahajan	97520	01.10.2001
37.	G. Manoj Kr. Sharma	97020	01.10.2001
38.	O.P. Agarwal	97520-A	01.10.2001

1	2	3	4
S/Shri/Ms.			
39.	Smt. K. Jothi Lakshmi	97021	01.10.2001
40.	A.B. Ram	97521	01.10.2001
41.	Ms. Somogyar Pal	97023	01.10.2001
42.	Manoj Kumar Done	97024	01.10.2001
43.	M.K. Ssrivastava	97523	01.10.2001
44.	Smt. M. Sunitha	97025	01.10.2001
45.	S.K. Sarkar	97524	01.04.2002

P.C. BHATT
Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 12th September 2003

F.No. 1/19/2002-Cy-III.—On attaining the age of superannuation, Shri S.V. Gavli, Chief Control Officer, Currency Note Press, Nashik Road, relinquished the charge of the post of Chief Control Officer on 31st August 03 (Afternoon). His name stands deleted from the rolls of Currency Note Press with effect from that date.

APARAJITA CHOWDHURY
Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 15th September 2003

No. 1/14/97-DRT.—The President is pleased to extend the deputation term of Sh. Suresh Kumar, Assistant registrar in the office of DRT, Aurangabad for the period from 20.10.2003 to 19.10.2004 on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 or until further orders, whichever is earlier.

S.P.S. SANGWAN
Under Secy.

No. 13/9.03-DRT.—In pursuance of the powers conferred by Sub Section (i) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Govt. hereby appoints Sh C.K. Lahiri, Addl. Dist. & Sessions Judge, 2nd Court, Barasat as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Allahabad for a period of five years from 1.9.2003 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

S.P.S. SANGWAN
Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 8th September 2003

No. A-11013/2/2002-Admn.1—The President is pleased to appoint Shri Shakti Singh, RAS, Settlement Officer and Revenue Appellate Authority of Government of Rajasthan as Additional Private Secretary in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the personal staff of Hon'ble Finance Minister, with effect from the forenoon of 5th September, 2003 on co-terminus basis.

The services of Shri Shakti Singh will stand repatriated to his parent office when Finance Minister demits office or when his services are no longer required by the Finance Minister, whichever is earlier.

S. L. NEGI,
Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 19th September 2003.

No. 8/19/2000-PP&C/IRS.—The President is pleased to appoint Shri T. R. Subramanian, former Joint Registrar of Trade Marks as Technical Member in Intellectual Property Appellate Board, Chennai with effect from the forenoon of September 15, 2003 for a period of five years or till Shri T. R. Subramanian attains the age of 62 years, whichever is earlier.

2. The salary and allowances payable to Shri T. R. Subramanian as Technical Member in the Property Appellate Board and the conditions of service by which he will be governed, shall be in accordance with the provisions of the 'Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003'.

T. C. JAMES,
Dy. Secy.

No. 8/19/2000-PP&C/IRS.—The President is pleased to appoint Shri Justice S. Jagadeesan, former Judge, Madras High Court as Chairman of Intellectual Property Appellate Board, Chennai with effect from the forenoon of September 15, 2003 for a period of five years or till Shri Justice S. Jagadeesan attains the age of 65 years, whichever is earlier.

2. The salary and allowances payable to Shri Justice S. Jagadeesan as Chairman in the Intellectual Property Appellate Board and the conditions of service by which he will be governed, shall be in accordance with the provisions of the 'Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of

service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003.

T. C. JAMES,
Dy. Secy.

No. 8/19/2000-PP&C/IRS.—The President is pleased to appoint Dr. Raghbir Singh, former Secretary, National Commission to Review the Working of the Constitution as Vice-Chairman of Intellectual Property Appellate Board, Chennai with effect from the forenoon of September 15, 2003 for a period of five years or till Dr. Raghbir Singh attains the age of 65 years, whichever is earlier.

2. The salary and allowances payable to Dr. Raghbir Singh as Vice-Chairman in the Intellectual Property Appellate Board and the conditions of service by which he will be governed, shall be in accordance with the provisions of the 'Intellectual Property Appellate Board (salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003'.

T. C. JAMES,
Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 23rd September 2003.

No. A-12022/3/2001-Cadre—The President is pleased to appoint Shri V. D. Alam, CSS, as Deputy Secretary with effect from the forenoon of 16th September, 2003 in the Department of commerce (Supply Division). His tenure in the Department will be upto 16th February, 2008 or until further orders whichever is earlier.

2. Shri Alam is posted in integrated Finance Wing (Supply Division), New Delhi.

S. DAS,
Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 29th August, 2003

No. 17/2003 (A-12022/6/2002-Estt) :—The President is pleased to appoint Shri Prem Sagar, Deputy Secretary (CSS) as Deputy Secretary in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 with effect from the forenoon of 11th August, 2003 for a period of 7 years or until further orders, or till the date of his superannuation whichever event takes place the earliest.

P. K. GERA
Director.

The 5th September, 2003

No. 18/2003 (A-12026/2/2003-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri B. S. Bhatia, Private Secretary, Ministry of Labour, as Additional Private Secretary to Minister of Textiles (Shri Syed Shahnawaz Hussain) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from the forenoon of 24th May, 2003.

2. The appointment of Shri Bhatia will be on co-terminus basis or upto the period as desired by the Minister of Textiles, whichever is earlier.

P. K. GERA
Director.

The 8th September 2003.

No. 19/2003 (A-19011/8/2003-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Mrutyunjay Behera, a Junior Time Scale (JTS) level officer of the Indian Economic service as Research Officer in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from the forenoon of 1st September, 2003.

P. K. GERA
Director.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th August 2003.

No. A-11011/1/2003-Estt.—In partial modification of this Department's Notification of even No. dated the 20th June, 2003 the date of appointment of Shri Debashis Bhowmick, Programme Officer of National Co-operative Development Corporation (NCDC), to the post of Asstt. P. S. to Minister of State for Chemicals and Fertilizers may be read as 24.2.2003 (FN) in place of 3.2.2003.

R. P. VASISHTHA
Under Secy.

The 10th September 2003

No. A-32011/4/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri P. N. Maji a regular Joint Industrial Adviser of this Department to the post of Additional Industrial Adviser in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300— with effect from 1st April, 2002 and until further orders, with all consequential benefits.

R. P. VASISHTHA
Under Secy.

The 11th September 2003

No. A-11011/5/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rama Raman, IAS(UP:87) as Private Secretary to the Minister of State for Chemicals and Fertilizers (Dr. Chhattra Pal Singh) at the level of Director for a period of five years w.e.f. the afternoon of 4th September, 2003 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 6th August 2003

No. A-12011/13/02-HR-II—The President is pleased to appoint Shri R. Balasubramanian, ICoAS (91) as Joint Director (F&A) (Deputy Secretary level) in the office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) an attached office of Department of Fertilizers in the scale of Rs. 12,000-325-16,500/- w.e.f. 01.08.2003 (F/N) for a period of four years or until further orders whichever event takes place earlier.

PAWAN WADHWA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 18th September 2003

No. A-12012/2/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Amit Prasad, IDAS as Officer on Special Duty to the Minister of State for Coal (Shri Prahlad Singh Patel) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 1st September, 2003 (FN) on deputation basis co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 16th September 2003

No. 47(6)/94-Estt. (Vol.III)—In continuation of the Ministry of Steel Notification of even number dated 23.1.2003, the President is pleased to extend the appointment of Shri A.C.R. Das and Shri D. Kashiva, regular Deputy Industrial Advisers in the Ministry of Steel, to officiate as Joint Industrial Advisers on a *ad-hoc* basis in the same Ministry w.e.f. 1.8.2003 to 28.8.2003.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 2(13)/2002-Estt.—On the recommendations of the UPSC, the President is pleased to appoint, in that

order, Shri A.C.R. Das and Shri D. Kashiva, Deputy Industrial Advisers and officiating as JIAs on an *Ad hoc* basis in the Ministry of Steel, as Joint Industrial Advisers in the same Ministry, on a regular basis w.e.f. 29-8-2003 and until further orders. The appointment is deemed to have been made by promotion.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-03, the 17th September 2003

No. A-32013/1/96-Admn.—The President is pleased to appoint Shri R. L. Meena, Deputy Director in the M/o Heavy Industries & Public Enterprises, Department of Public Enterprises as Joint Director in the scale of pay of Rs. 12,000-325-16,500 in the same office purely on temporary and *ad-hoc* basis for a period of six months w.e.f. the forenoon of 15th September, 2003 or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

G. S. BOTHYAL, Dir.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, 10th September 2003

No. A.-32013/03/2001-Admn I(A)—The President is pleased to appoint the following Junior Analysts as Scientist 'B' on *ad-hoc* basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 the dates as mentioned against their names or till regular incumbents join duty, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the officer	Period of <i>ad-hoc</i> appointment
1.	Shri A. N. Singh	17.06.03 to 03.01.04
2.	Shri Rajiv Khanna	17.06.03 to 03.01.04
3.	Shri R. K. Joshi	02.07.03 to 03.01.04
4.	Shri R. K. Sharma	02.07.03 to 03.01.04
5.	Shri Radhey Shyam Tiwari	28.07.03 to 03.01.04
6.	Shri V. Kompella	29.08.03 to 03.01.04
7.	Shri G. Harish Kumar	29.08.03 to 03.01.04
8.	Dr. A.B.P. Mishra	03.09.03 to 03.01.04
9.	Shri Sohan Bir Singh	03.09.03 to 03.01.04

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 1st September 2003

No. A-12026/7/2002-IFS.I—The President is pleased to appoint Shri S. M. Sahai, an officer belonging to the 1989 batch of Assam-Meghalaya cadre of the Indian Forest Service, to the post of Deputy Conservator of Forests in the Office of CCF(C), Lucknow with effect from the forenoon of 28th July, 2003 for a period of four years.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

The 10th September 2003

No. A-19011/13/2003-IFS.I—The President is pleased to appoint Shri R. K. Srivastava, an officer belonging to the 1985 batch of Joint Manipur-Tripura cadre of the Indian Forest Service, to the post of Conservator of Forests in the Office of CCF(C) in Regional Office, Lucknow with effect from the forenoon of 20th May, 2003 for a period of five years.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 5th September 2003

No. 17013/11/2002-IFS-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following **Four** officers of the State Forest Service of Maharashtra to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2002 and to allocate them to Maharashtra cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	B. P. Walimbe	01.06.1957
2.	Anwar Jamal Ahmed	12.03.1960
3.	V. J. Waghmare (SC)	11.07.1957
4.	S.U. Hivlekar	12.03.1960

G. DEVNANI, Under Secy

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 12th September 2003

No. A-12025/9/2001-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Atul Mohan Kochhar

to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service on probation and to post him as Dermatologist in Govt. of NCT of Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 30th April, 2003 and until further orders.

U.C. NANGIA, Dy. Secy.

The 15th September 2003

No. A.12025/37/95-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vishnu Prasad N.R. an officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Assistant Professor of Surgery, w.e.f. 29.11.2001 forenoon at JIPMER, Pondicherry and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 12th September 2003

No. A.12025/409/91-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shyam Sundar Sahoo to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October, 1991 until further orders. Dr. Shyam Sundar Sahoo is posted as Medical Officer under Labour Welfare Organisation, Bhubaneswar Region with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/91/94-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepak Dattatraya Tandel to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. Deepak Dattatraya Tandel is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/174/97-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Christ Alok Eriyas Tirkey to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 25.11.1997 until further orders.

Dr. Christ Alok Eriyas Tirkey is posted as Medical Officer Under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ISM & H)

New Delhi, the 5th September 2003

No. A. 32012/1/2002-ISM(E-I)—Consequent upon his promotion, Dr. M. K. Nesari, relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer (Ay.), on the forenoon of 30th April, 2003 and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer (Ay.) in the pay scale of Rs. 12,000-325-16,500 + NPA in the C.G.H.S., Pune on the forenoon of 30th April, 2003 until further order.

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

The 11th September 2003

No. A.22012/2/99-ISM(E-I)—Consequent on his transfer, Dr. M. Muthukrishnan relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer (Ay.), CGHS, Delhi on the afternoon of 4th March, 2003 and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer (Ay.), CGHS, Bangalore on the forenoon of the 26th March, 2003.

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 29th August 2003

No. 29-4/2002-PP-II—The President is pleased to appoint Smt. Pammi Sharma, a regular Assistant Director (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, as Deputy Director (Entomology) in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- in the same Directorate with effect from the forenoon of 18th August, 2003, by transfer on deputation basis for a period not exceeding three years or until further orders, whichever is earlier.

SATWANT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 4th September 2003

No. A-11014/6/1998-M.I—Consequent upon the grant of revised scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- to the posts of Marketing Officer (Group-II) in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from 1st January, 1996, vide Ministry of Agriculture, Department

of Agriculture and Cooperation, New Delhi, Notification No. A-11014/1/1998-M.I, dated 21st February, 2000, these posts are classified as Group 'A' posts.

S. K. GADI, Under Secy

New Delhi, the 10th September 2003

No. 12022/3/2003-E-I—The President is pleased to appoint Shri P. K. Sharma, IFS, (UP:86), as Deputy Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- under Central Staffing Scheme for a period of four years with effect from the forenoon of 9.9.2003 or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 15th September 2003

No. 2-5/2003-NRM.III—The President is pleased to appoint Shri B.R. Verma, Assistant Soil Survey Officer, Bangalore Regional Centre, All India Soil & Land Use Survey (AIS&LUS) to the post of Soil Survey Officer (G.C.S. Group 'A') in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, on officiating promotion basis, at the same Organization, with effect from the forenoon of 5th August, 2003, until further orders.

SAT PAL, Under Secy.

(AGRICULTURAL MARKETING DIVISION)

New Delhi, the 5th September 2003

No. 32013/2/2001-M.I—In continuation to this Ministry's Notification No. 32013/2/2001-M.I, dated 1st February, 2002, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Dr. G.R. Bhatia, Additional Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, an attached office of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation for a further period of one year beyond 14th January, 2003 (FN) or until further orders whichever is earlier.

S. K. GADI, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 8th September 2003

No. E-13015/1/2003-Hindi.— In pursuance of Sub-rule 4 of the Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, zonal office, Mumbai where 80% staff has acquired working knowledge of Hindi.

P.K. JAJORIA, Director (Admn.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 16th July 2003

No. A-32014/8/2002-Admn.II.—The President is pleased to extend the term of appointment of Shri Amar Singh, Principal Private Secretary as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in this Department for a further period of 3 months viz. from 1.07.2003 to 30.09.2003 or till regular incumbent joins the post, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Amar Singh is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to him for his continuation, regularisation or seniority in the grade of Senior Principal Private Secretary.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn.II)

The 16th September 2003

No. A-12025/1/99-Admn.II.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 27.8.2002, the President is pleased to permit Shri Chanderpall Singh Verma, Section Officer of the CSS cadre, Department of Telecommunications to continue to function as Assistant Director General (Vigilance Monitoring) in the same Department in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis for a further period of one year (i.e. 5th year) with effect from 28th October, 2003, or till further orders, whichever is earlier, without any deputation allowance.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn.II)

New Delhi-110001, the 16th September 2003

No. 41-04/2001-Admn.IV.—The President is pleased to permit the following Engineers in the Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Telecommunications to continue to officiate as Engineers-in-Charge/Assistant Wireless Advisers in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the same Department, on ad-hoc basis, for the periods mentioned against their names, or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name	From	To
1.	P.D. Ambade	30.06.2003	29.12.2002
2.	Gulab Chand	21.06.2003	20.12.2003
3.	N. K. Bhola	01.07.2003	31.12.2002
4.	R. Paramanathan	04.07.2003	13.01.2004
5.	K.S. Kandhari	17.07.2003	16.01.2004
6.	Viresh Goel	23.08.2003	22.02.2004
7.	P. Kannegam	20.06.2003	19.12.2003

BINDU ROY, Under Secy. (Admn. IV)

New Delhi, the 15th September 2003

No. 20-4/2003-STG-II.—It is notified with deep regret that the following TES/TTS Group-B officers expired on the date mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	St. No.	Name of Circle	Expired on
1.	Sh. B.R. Prajapati	31087	MTNL, Mumbai	15.05.2003
2.	Smt. D. Vijayamma	12107	KRL	10.07.2003
3.	Sh. V. P. Telrandhe	105172	MH	05.08.2003

RAM AUTAR, Under Secy.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th September 2003

No. A-12018/5/2001-Admn./SFS/SS.—The President is pleased to appoint Shri R. D. Gupta, Assistant Commissioner of Security (Civil Aviation) as Officer on Special Duty (Intelligence) in the Bureau of Civil Aviation Security, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- plus special pay of Rs. 1000/- per month, on deputation basis from 5th August, 2003(F/N) till his superannuation i.e. upto 31.07.2007.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 4th September 2003

No. A-12023/1/2003-E-I.—The President is pleased to appoint Dr. Shalini Rajneesh, IAS (KTK 89) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Shripad Y. Naik) on co-terminus basis w.e.f. 25.5.2003 (F.N.) till further orders.

Dr. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

No. A-12023/1/2003-E-I.—The President is pleased to appoint Shri T. V. Raghavan, Junior Assistant in the Office of Resident Commissioner, Goa as Assistant Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Shripad Y. Naik) on co-terminus basis w.e.f. 25.5.2003 (F.N.) till further orders.

Dr. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING
(PORTS WING)

New Delhi, the 15th September 2003

No. A-12026/1/2003-PE-II.—On attaining the age of superannuation, Shri S. Kaspar Raj, Executive Engineer (Civil) in the Andaman Lakshadweep Harbour Works retired from Government service with effect from the afternoon of 30.06.2003.

N. BARIK, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 19th September 2003

No. 15/2003, F. No. A-35018/2/2002-Admn.I.—In exercise of the powers conferred under Sub-section (3) of Section 70 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby appoints Shri G.K. Pharia, an officer in the grade of Chief Engineer/Member-Secretary (REBs) of the Central Power Engineering (Group A) Service, as Member (Hydro), Central Electricity Authority in the pay scale of Rs. 22400-525-24500 with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, for a period of five years with effect from the forenoon of 08.09.2003 or till the age of superannuation, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The appointment of Shri G.K. Pharia as Member (Hydro), Central Electricity Authority will be regulated by the relevant provisions of the Electricity Act, 2003 and the Central Electricity Authority (Terms & Conditions of Chairman and other Members), Rules, 1988, as amended from time to time.

V.C. KAJLA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 5th September 2003

No. 7/2003, F. No. 2/1/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Bharat Maurya as Special Technical Assistant (Liaison & Protocol) on deputation basis, in the Ministry of Water Resources in the scale of Rs. 6500-200-10500/- for a period of 3 years with effect from the afternoon of 29.11.2002.

N.K. GUPTA, Under Secy.